



आनंद ही आनंद

७ जून २०१५
रेन, फ्रांस

श्री शिवराज सिंह जी चौहान
मुख्यमंत्री,
मध्य प्रदेश
भोपाल

माननीय शिवराज सिंह जी चौहान,

मध्य प्रदेश एक, भारत का एक तरीके से हृदय प्रदेश है, भारत के नक्शे को जब भी देखता हूँ मध्य प्रदेश भारत का संचार प्रदेश लगता है, इस प्रदेश का इतिहास भी कुछ ऐसा है। अनेकानेक संतों और फकीरों से इस प्रदेश की यात्राएं की हैं, यह प्रदेश समस्त देशवासियों और अलग अलग पंथों के लोगों के लिए पवित्र भूमि जैसा रहा है। भारत के नक्शे में यह दिल की तरह नित नयी प्रेरणा देता रहा है।

जैसा की आप सहमत हैं कि जब तक भारत के ग्रामों का, किसानों का उद्धार और उदय नहीं होता, तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता, दुनिया के वो सारे समस्त राष्ट्र जिन्होंने प्रगति के सागर में अपनी स्थापना की है उन सबने अपने किसानों और ग्रामीणों को भी एक ऐसा जीवन प्रदान किया है जहाँ वो प्रगति की धारा में स्वयं की प्रगति कर पाए हैं। आज से सालों पहले राष्ट्र संत श्री तुकोजी महाराज ने कहा था की "ग्राम उदय से ही भारत उदय होगा" मुझे यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी यह पहले थी।

मैंने आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक विशेष आध्यात्मिक आदेश के तहत भारत के ग्रामीणों और किसानों तक पहुँचने के लिए सम्पूर्ण भारत की पद यात्रा शुरू की है, यह मात्र पद यात्रा नहीं अपितु ग्रामों की मेरी व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा भी है। महाराष्ट्र के यवतमाळ जिले से इस यात्रा का पहला चरण बीते गत अप्रैल महीने में पूरा हुआ था, अब इसका दूसरा चरण बेतुल जिले में है, जो की आदिवासी बहुल एवं प्राकृतिक सम्पदा से संपन्न जिला है। मैं स्वयं और भारत के अनेक प्रांतों, शहरों, ग्रामों से अनेकानेक लोग इस पद यात्रा में चलने वाले हैं। बेतुल जिले की पद यात्रा की शुरुआत २१ जून को सम्पूर्ण देश की पावन धरा मुलताई में माँ ताप्ती के उद्गम स्थल से हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामीणों और किसानों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुन सकूँ, ग्रामों के उद्भव और विराट इतिहास के साथ साथ जिले की कला और शिल्प से भी परिचित होते हुए एक सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर सकूँ। मेरी कोशिश यह भी है कि शासन तक उनकी समस्याओं को पहुंचा भी सकूँ,

आनंद ही आनंद, प्लॉट नंबर २७, ब्लॉक न.२०२ पिसे काम्प्लेक्स, सरदार पटेल मार्किट, ग्रेट नाग रोड नागपुर,

४४०००३

1 53 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE, RENNES, FRANCE, 35000


सत्ता अपना कार्य करने की कोशिश हमेशा करती है, पर मुझे लगता है कि धर्म और आध्यत्म की धरा से मैं शासन को अगर कोई सहयोग दे सकता हूँ तो दे सकूँ। आज भारत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि शासन को सहयोग करने के लिए, समाज के हर एक तबके को आगे आना होगा, मैं धर्म और आध्यात्म की धुरी से इसी भावना के तहत भारत की पद यात्रा में निकला हूँ।

आज भारत का किसान और ग्रामीण हतोत्साहित है, भारत का विराट इतिहास जो की ग्रामों में बसता है आज अपनी भूमि में अपने आपको कमजोर पा रहा है, ग्राम संस्कृति और भारत के पुरातन स्थल आज संकट के दौर में हैं, ग्रामीण युवा अपने आपको भारत की मुख्या धारा से अलग थलग पा रहा है। पर जब तक यह सब वृहद समाज के बीच नहीं पहुंचता, समाज जब तक अपने ग्रामों के सम्बन्ध और संवाद स्थापित नहीं करता तब तक समाज अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। मैं जानता हूँ कि आप भी मध्य प्रदेश के विराट इतिहास और इसकी पावन धरा में रहने वाले ग्रामीण और किसानों के लिए चिंतित रहते हैं, आपकी इस चिंता में मैं जितना सहयोग धर्म और आध्यात्म की धरा से कर सकता हूँ, जरूर करूँगा।

आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न नीतियां किसानों और ग्रामीणों के लिए चालू की हैं, मैं स्वयं और अनेक स्वयंसेवक इन नीतियों को ग्रामीणों और किसानों के बीच जरूर बाटेंगे, मैं अपेक्षा रखता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग बेतुल जिले में होने वाली इस यात्रा में अपना सहयोग करेंगे, इससे हो सकता है हम एक नया संवाद किसानों और ग्रामीणों से कर पाएं, जिन समस्याओं को शासन अभी तक न देख पाया हो हो सकता है ग्रामीण खुले मन से अपनी परेशानियों को रखें तो नीतियां अपना काम कर पाएंगी।

अगर आप इस पद यात्रा में एक दिन का भी समय निकाल सकें तो जरूर आएँ, इससे इस यात्रा को एक नया आधार मिलेगा। मैं मध्य प्रदेश जब जब पद यात्रा में आऊंगा आपको सूचित करता रहूँगा और हमारी पद यात्रा की विशेष रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश सरकार को भी दी जाएगी। मैंने कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री लिखते हुए इस पद यात्रा से अवगत कराया था, उनको भी इस पद यात्रा के तहत हर एक जिले की रिपोर्ट देने का वायदा किया है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हम कैसे ग्राम उदय का सपना साकार कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में भी लगातार आपके संपर्क में रहूँगा।

मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भारत के किसानों के लिए एक केंद्र बने, भारत उदय के लिए मध्य प्रदेश एक मॉडल बने, इसकी आशा के साथ

आपका

विवेक जी

आनंद ही आनंद, प्लॉट नंबर २७, ब्लॉक न.२०२ पिसे काम्प्लेक्स, सरदार पटेल मार्किट, ग्रेट नाग रोड नागपुर,

४४०००३

53 BD DE LA TOUR D'AUVERGNE, RENNES, FRANCE, 35000